

June 15, 2024

To, Listing Department, BSE Limited, Floor-25, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai- 400 001

Scrip Code: 505729

Sub: Copies of the Newspaper Advertisements – 46th Annual General Meeting and Electronic Voting Instructions

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the public notice published in newspaper today i.e. June 15, 2024, regarding notice of 46th Annual General Meeting for the financial year 2023-24 to be sent electronically to the members on June 21, 2024, in the following newspapers:

- The Financial Express (English National Daily Newspaper-All Edition).
- The Jansatta (Hindi Daily Newspaper-Delhi Edition).

The newspaper advertisements are also available on the website of the Company at www.singerindia.com.

You are requested to take the above Information on record.

Thanking you,

Yours Sincerely,

For Singer India Limited



Rupinder Kaur Compliance Officer & Company Secretary

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

JJM Kulakkada, Ittiva, Poruvazhy, Thodiyoor, Thrikaruva, Chithara, Pattazhy Vadakkekkara Piravanthoor - laying gravity main, pumping main, WTP, CWPM & TM, OHSR, Boosting pump house, pump sets, replacement of existing TM, well cum pump house providing FHTCs and allied works EMD: Rs. 200000, 500000 Tender fee: Rs. 16540+2978 11025+1985 Last Date for submitting Tender: 10-07-2024 02:00:pm Phone: 0474 2745293 Website: www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in

> **Superintending Engineer PH Circle** Kollam

KWA-JB-GL-6-58-2024-25

NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATE ABB INDIA LTD.

This is to inform the General Public that following share certificate of ABB India Ltd. having its Registered Office at 3rd Floor, Plot No. 5 & 6, 2nd Stage, Peenya industrial Area IV, Bengaluru, Karnataka-560058 registered in the name of the following shareholder/s has/have been lost by the registered holder(s).

Sr. No.	Name of the Shareholder/s	Folio No.	Certificate No./s	Distinctive Number/s	No. of Shares
1	Mohan Mani Akanshka Verma	M 0025405	145572-77	30111731-30111794	64
2	Mohan Mani Akanshka Verma		329911-13	39531478- 39531498	21

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificates.

Any person who has any claim in respect of the said share certificate/s should lodge such claim with the company or its Registrar and Transfer Agents KFin Technologies Ltd., Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad, Telangana-500032 within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate/s.

Place: Mumbai Date: 15.06.2024

Mohan S Mani / Akanshka Verma

PRIME CAPITAL MARKET LIMITED

CIN: L67120OR1994PLC003649 Registered Office: OU-618, 6th Floor, Esplanade One, Rashulgarh, P.O Mancheswar, Dist. Khurda, Bhubaneswar, Orissa - 751 010 Corporate Office: P-27, Princep Street, 3rd Floor, Kolkata - 700 072 Email: primecapital.kolkata@gmail.com: Website: www.primecapitalmarket.in

PUBLIC NOTICE FOR PROPOSED VOLUNTARY DELISTING OF EQUITY SHARES FROM THE CALCUTTA STOCK EXCHANGE LIMITED

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 5 and 6 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ("SEBI Delisting Regulations"), the Board of Directors of PRIME CAPITAL MARKET LIMITED ("Company") at its meeting held on June 14, 2024 approved inter alia, a proposal for voluntary delisting of Equity Shares from the Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE") only. Presently, the Equity Shares of the Company are listed on both the Bombay Stock Exchange and the Calcutta Stock Exchange. Since there has been no trading in the Equity Shares of the Company at the CSE for the last many years and the Company also incurs extra operational costs of being listed on the CSE, therefore, it is being proposed to delist the Equity Shares of the Company from the CSE only. The delisting from CSE will not be prejudicial to or affect the interest of the investors.

In terms of Regulation 6 of SEBI Delisting Regulations the Company has proposed the delisting of its Equity Shares from the CSE only without giving any exit opportunity to the equity shareholders of the Company, as the Equity Shares of the Company will remain to be listed on the Bombay Stock Exchange, having nationwide trading terminal, Subsequently, all the shareholders of the Company shall continue to avail the benefits of listing and trading at the Bombay Stock Exchange.

For PRIME CAPITAL MARKET LIMITED

Date: June 14, 2024

Adarsh Purohit Managing Director

V B INDUSTRIES LIMITED

CIN: L51909WB1982PLC035222 Registered Office: P-27, Princep Street, 3rd Floor, Kolkata - 700 072 Tel: +91 33 2242 7270. Email: vbindustries1@gmail.com: Website: www.vbindustriesltd.com

PUBLIC NOTICE FOR PROPOSED VOLUNTARY DELISTING OF EQUITY SHARES FROM THE CALCUTTA STOCK EXCHANGE LIMITED

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 5 and 6 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ("SEBI Delisting Regulations"), the Board of Directors of V B INDUSTRIES LIMITED ("Company") at its meeting held on June 14, 2024 approved inter alia, a proposal for voluntary delisting of Equity Shares from the Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE") only.

Presently, the Equity Shares of the Company are listed on both the Bombay Stock Exchange and the Calcutta Stock Exchange. Since there has been no trading in the Equity Shares of the Company at the CSE for the last many years and the Company also incurs extra operational costs of being listed on the CSE, therefore, it is being proposed to delist the Equity Shares of the Company from the CSE only. The delisting from CSE will not be prejudicial to or affect the interest of the investors.

In terms of Regulation 6 of SEBI Delisting Regulations the Company has proposed the delisting of its Equity Shares from the CSE only without giving any exit opportunity to the equity shareholders of the Company, as the Equity Shares of the Company will remain to be listed on the Bombay Stock Exchange, having nationwide trading terminal. Subsequently, all the shareholders of the Company shall continue to avail the benefits of listing and trading at the Bombay Stock Exchange.

For V B INDUSTRIES LIMITED

Date: June 14, 2024 Place: Kolkata

Gwal Das Vyas Managing Director



SINGER INDIA LIMITED

(CIN: L52109DL1977PLC025405) Regd. Office & Head Office: A-26/4, 2nd Floor, Mohan Cooperative Industrial

Estate, New Delhi-110044 Tel: +91-11-40617777, Toll Free No. 1800-103-3474

E-mail: secretarial@singerindia.com, mail@singerindia.com, Website: www.singerindia.com NOTICE OF 46th ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION REGARDING ELECTRONIC VOTING

Notice is hereby given that the 46th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Singer India Limited ("Company") is scheduled to be held on Wednesday, 17th July 2024 at 01:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visua Means("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations') read with General Circular number 14/2020, 17/2020, 20/2020, 2/2022, 10/2022 and 09/ 2023 and all relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/7 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 dated Decembe 9, 2020, Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and other relevant circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as 'SEBI Circulars'), which permitted to hold AGM through VC/ OAVM, without the physical presence of the Members at the common venue. A detailed instruction for joining the AGM through VC/OAVM is given in the Notice of the AGM

In compliance with the provisions of the Act, SEBI Listing Regulations, MCA Circulars & SEBI Circulars, the Notice of 46th AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 is to be sent on 21st June, 2024, through electronic mode, to those Members of the Company whose email IDs are registered with the Company/its Registrar and Share Transfer Agent or Depository Participant(s) ("Depository"). The aforesaid Notice of 46th AGM and Annual Report for the financial year 2023-24 are available at Company's website at www.singerindia.com and also can be downloaded from the website, on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Securities Depository Limited ("NSDL"

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company is providing remote e-voting facility prior to AGM and facility of e-voting system during the AGM to all the eligible Members of the Company to cast their votes on a resolutions set forth in the Notice of the AGM using remote e-voting and e-voting system (collectively referred as "electronic voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency to provide the electronic voting facility.

The Board of Directors of the Company has appointed M/s. Varuna Mittal & Associates Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the voting process electronically or otherwise for remote e-Voting and e-Voting at the AGM in a fair and transparent manner. The results of the electronic voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM along with Scrutinizer's Report will be declared within the permissible time under applicable law. The results and Scrutinizer's Report will also be displayed on the website of the Company i.e. www.singerindia.com, website of Stock Exchange i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, on the website of NSDL at https:// www.evoting.nsdl.com and at the registered of the Company.

The details as required pursuant to the Act and Rules are a under-The remote e-voting shall commence on Sunday, July 14, 2024, at 09:00 A.M.

(IST) and ends on Tuesday, July 16, 2024, at 05:00 P.M. (IST). Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time

A person whose name appears in the Register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. July 10, 2024, shall be entitled to avail the facility of electronic voting. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday, July 10, 2024. Any person who has acquired shares and become members of the Company after dispatch of Notice of AGM and holds share(s) as on the cut-off date, can also cast vote through electronic voting. The detailed procedure for obtaining login details is provided in the Notice of the AGM which is available on Company's website www.singerindia.com

Those Members who are present at the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their votes on the resolutions via remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting during the AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be allowed to cast their vote again at the AGM. A person who is not a member

as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only. Members who have not registered their email ID may get the same registered/ updated with Company / RTA or Depository to cast their vote (s) through remote e-voting before the AGM or through e-voting during the AGM. The manner of the registering email addresses of those Members whose email addresses are not registered with Company/Depository is provided in the Notice of the AGM which is available on Company's website www.singerindia.com

n case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on .: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Palavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in.

Place: New Delhi

Date: 14th June 2024

By the order of the Board For SINGER INDIA LIMITED Rupinder Kaur Company Secretary



VEDANTA LIMITED

CIN: L13209MH1965PLC291394

Regd. Office: 1st Floor, C Wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai—400093, Maharashtra, India Phone No. +91 22 6643 4500, Fax: +91 22 6643 4530; Email ID: comp.sect@vedanta.co.in, Website: www.vedantalimited.com

PUBLIC NOTICE TO THE MEMBERS – 59TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting ("AGM/Meeting") of the Members of the Company is scheduled to be held on **Wednesday, July 10, 2024 at 3:00 p.m. IST** through Video Conferencing ("**VC**")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set forth in the Notice convening the Meeting ("Notice") which would be circulated in due course of time.

Pursuant to General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read together with other previous Circulars issued by MCA in this regard (collectively referred to as "MCA") Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") read together with other previous Circulars issued by SEBI in this regard (collectively referred to as "SEBI Circulars"), companies are permitted to convene the AGM through VC or OAVM without physical presence of the Members at a common venue till September 30, 2024. Accordingly, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM.

In accordance with the said MCA and SEBI Circulars, the Company will send the Notice along with the Integrated Report and Annual Accounts for FY 2023-24 ("Integrated Annual Report") electronically to all its Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participants ("DPs"). No physical copies of the Notice and the Integrated Annual Report will be sent to the Members.

Members may note that the Integrated Annual Report including the Notice is also being made available on the website of the Company at www.vedantalimited.com, the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com and also on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Members whose e-mail ID is not registered and who wish to receive the Notice, Integrated Annual Report and all other communications by the Company, from time to time, may get their e-mail IDs registered by submitting Form ISR-1 to KFin Technologies Limited (Formerly known as KFin Technologies Private Limited) ("KFin"), the Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") of the Company, at einward.ris@kfintech.com or to the Company at comp.sect@vedanta.co.in. However, for the shares held in demat mode, Members are requested to write to their respective DPs.

All the Members holding shares in physical mode are mandatorily required to furnish/update their e-mail ID, Mobile Number. PAN and other KYC details through Form ISR-1, to furnish the Nomination as provided in Rule 19(1) of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 through Form SH-13 or to opt out from giving the Nomination through Form ISR-3 and to change the Nomination through Form SH-14 pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024. The forms are also available on the website of the Company at www.vedantalimited.com. SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTABM/P/ CIR/2022/8 dated January 25, 2022 has mandated the listed companies to issue securities in demat mode only.

SEBI has mandated for all companies to utilize the bank account details as furnished by the Depositories and as maintained by the RTA for payment of dividend electronically to Members. To enable the Members to receive the dividend at the earliest, the Members holding shares in physical mode are requested to submit particulars of their bank accounts in Form ISR-1 along with the original cancelled cheque bearing the name of the Member to the Company/KFin to update/change their bank account details and all the eligible Members holding shares in demat mode are requested to update with their respective DPs, their correct Bank Account Number, including 9 Digit MICR Code and 11 digit IFSC Code. Members holding shares in physical mode may communicate the details to KFin, Hyderabad office by mentioning the Folio No. and attaching photocopy of the cheque leaf of their active bank account and a self-attested copy of their PAN card. In accordance with the above, dividends in respect of physical folios wherein any of the KYC details are not updated, will be held back by the Company. Members may please note that the dividends will get credited to their bank account only after the KYC details are updated in the folio.

In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and the MCA Circulars, the Company has engaged the services of NSDL as the agency for providing e-Voting facility (remote e-Voting before the AGM and e-Voting during the AGM) to the Members of the Company to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM through electronic voting system.

The Members can join and attend the AGM through VC/OAVM facility only or view the live webcast of the proceedings. The detailed procedure for e-Voting and participation in the AGM through VC/OAVM or to view the live webcast will be provided in the Notes to the Notice. The Members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Those Members who participate in the AGM through VC/OAVM and have not casted their vote through remote e-Voting may cast their vote during the AGM.

The Members are requested to carefully read all the Notes as set out in the Notice and in particular, instructions for joining the AGM, and manner of casting vote through remote e-Voting or e-Voting during the AGM.

The joining links for the AGM and other details can also be accessed at www.vedantalimited.com.

For Vedanta Limited Prerna Halwasiya **Company Secretary and Compliance Officer** ACS 20856

Place: New Delhi, India Date: June 15, 2024

PURAVANKARA

PURAVANKARA LIMITED (CIN: L45200KA1986PLC051571)

Registered Office: No. 130/1, Ulsoor Road, Bangalore - 560 042 Tel: 080 2559 9000/4343999

Email: info@puravankara.com Website: www.puravankara.com

Postal Ballot Notice

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('Act') read together with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('Rules'), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), Secretarial Standard issued by the Institute of Company Secretaries of India ('SS-2') on General Meetings, each as amended, and in accordance with the requirements prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') for holding general meetings/conducting postal ballot process through e-voting vide General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 (collectively the 'MCA Circulars') and any other applicable laws, rules, circulars, notifications and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the approval of members of Puravankara Limited (the "Company") is sought for the following resolutions through Postal Ballot only by the way of remote e-voting process (e-voting):

SI. No. Description of Resolutions

- Proposal to raise funds in one or more tranches, by issuance of Equity Shares and/or other eligible securities
- Re-appointment of Mr. Anup Sanmukh Shah as an Independent Director for second term of five (5) consecutive years
- Ratification of material Related Party Transactions with Pune Projects LLP entered during the Financial Year 2023-24

Pursuant to the provisions of the Act and MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of electronic copies of the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement on Friday, 14th June 2024, through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/depository participant(s) as on Friday, 7th June 2024 ("Cut-off Date").

The said Notice is also available on the website of the Company: www.puravankara.com/investors, the relevant section of the website of BSE Limited ("BSE"); www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"): www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL"): www.evoting.nsdl.com. Members who do not receive the Postal Ballot Notice may download it from the above-mentioned websites

In accordance with the provisions of the MCA Circulars, Members can vote only through e-voting process. The voting rights of the Members shall be reckoned on the basis of the equity shares of the Company held by them as on the Cut-off Date. Any person who is not a shareholder of the Company as on the Cut-off Date shall treat the Postal Ballot Notice for information purposes only. The detailed procedure and instructions for e-voting are enumerated in the Postal Ballot Notice.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for the purpose of providing e-voting facility to all its Members. The e-voting facility will be available during the following period:

Saturday, 15th June 2024 at 9:00 a.m. (IST)
Sunday, 14th July 2024 at 5:00 p.m. (IST)
Friday, 7th June 2024

The e-voting facility will be disabled by NSDL immediately after 5.00 p.m. (IST) on Sunday, 14th July 2024.

The Board has appointed Mr. Nagendra D. Rao, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 5553, CP No. 7731) as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or any other person authorised by the Chairman, and the result will be announced within two working days from the conclusion of the e-voting period i.e. on or before Tuesday, 16th July 2024. The declared Results along with Scrutinizer's Report will be available forthwith on the Company's website at www.puravankara.com/investors and on NSDL's website at www.evoting.nsdl.com and will also be communicated to the BSE and NSE.

In case of any queries/ grievances concerning with voting by electronic means, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 /1800 224 430 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

In case of any queries related to Postal Ballot notice or in case any member whose name appears in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on cut-off date, has not received the Postal Ballot Notice, he/she may write to investors@puravankara.com.

By Order of the Board of Directors For Puravankara Limited

financialexp.epapr.in ______

Place: Bengaluru Date: 15th June 2024

Sudip Chatterjee Company Secretary Membership No.: F11373

ASSAM POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED

(A Govt. of Assam Public Limited Company) NOTICE INVITING TENDER

NIT NO: APDCL/CGM (RE)/SOPD/Char Area (S&D)/ASSAM/02

(Re-Tender)

Bids are invited from eligible bidders for single stage two envelopes bidding for Survey, Design, Drawing and Estimation of construction of tower foundation, tower structure and distribution line over river crossings for providing on-grid connectivity to char areas in the districts of Kamrup(R), Goalpara, South Salmara and Dhubri under State Owned Priority Development (SOPD) Scheme against various work packages on full turnkey mode.

Interested bidders will be able to view & download the detailed bidding documents in the website of APDCL www.apdcl.org & https://www. assamtenders.gov.in, the e-Procurement System of Govt. of Assam w.e.f. 18-06-2024. Interested Bidders are required to create their own user ID & password in the e-tendering portal, if not created earlier. Schedule to the Invitation of tender:

	Bid validity	180 days from the last date of submission of Bid	
Ç.	Publishing & Download of Bid	1500 Hrs. of 18-06-2024	
	Starting Date of submission of tender	1100 Hrs. of 19-06-2024	
	Pre-bid Meeting	1300 Hrs. of 21-06-2024	
	Last Date of submission of Tenders	1500 Hrs. of 02-07-2024	
	Date of opening of Bid	1100 Hrs. of 03-07-2024	

(both signing & encryption) for participating in the e-tendering. Interested bidders can contact the office of the CGM (RE), APDCL, for necessary assistance. N.B: Undersigned reserves the right to change/modify/cancel the

The prospective bidders are required to have their 'Digital Signature's or

notification without assigning any reason thereof. Sd/- Chief General Manager (RE) APDCL, Bijulee Bhawan (Annex Building), Paltanbazar, Guwahati - 781001 (Assam)

e-mail: cgmre.aseb@gmail.com Please pay your energy bill on time and help us to serve you better!

PANDHARI MILK PRIVATE LIMITED - IN LIQUIDATION CIN: U74999PN2014PTC151510

Regd. Add: A/P, Maruti Mandir, Jath, Tal Jath, Sangli Maharashtra 416404 E-Auction Notice Sale of assets under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of E-Auction: 8th July, 2024 at 11:00 AM to 02:00 PM for Block A 9th July, 2024 at 11:00 AM to 02:00 PM for Block B & C (With the unlimited extension of 10 minutes each)

Sale of assets of the Corporate Debtor by the liquidator under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The sale will be done by the undersigned through the E-auction platform https://eauctions.co.i (Linkstar Infosys Private Limited) Details of Assets Block . Land and building at Gonewadi, GAT No. 553/1, Jath, Taluka-Mangalweda, District-Solapur- (11100 Sgmt) 2. Plant and Machinery of the Corporate Debtor Incremental Value **Reserve Price Earnest Money Deposit** ₹ 5,40,45,157.50 ₹ 54.04.000/-₹ 2,00,000 Land and building at Gonewadi, GAT No. 553/1, Jath, Taluka-Mangalweda, District-Solapur- (11100 Sqmt) Incremental Value **Earnest Money Deposit** ₹ 1,87,42,134.00 ₹ 18,74,000/-₹ 2,00,000 . Plant and Machinery of the Corporate Debtor

Reserve Price **Earnest Money Deposit** Incremental Value ₹ 3,53,03,023.00 ₹ 35,30,000/-₹ 2,00,000 Last date of submission of Eligibility 28th June, 2024 in the manner mentioned in detail Eauction Process Document. 29th June, 2024 Declaration of Eligible Bidders nspection of Assets of Corporate From 29th June 2024 to 6th July, 2024 Last Date for submission of Earnest 6th July. 2024 Money Deposit Date and time of E-Auction for 8th July, 2024 at 11:00 AM to 02:00 PM for Block A 9th July, 2024 at 11:00AM to 02:00PM for Block B & C qualified bidders

TERMS & CONDITIONS OF THE SALE IS AS UNDER: I. E-Auction will be conducted **on "AS IS WHERE IS". "AS IS WHAT IS". "WHATEVER THERE** IS BASIS" AND "NO RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities through approved service provider Linkstar Infosys Private Limited Contact person on behalf of E-Auction Agency (Linkstar)- Contact person: Mr. Dixit Prajapati Email idadmin@eauctions.co.in, Mobile No.: +91 9870099713

2. The priority for the Auction process will be as follows: a. Block A will have an overriding preference over all other blocks.

b. The Bids for Block B shall only be considered subject to successful auction of Block C. 3. Eligibility Documents shall be submitted to Liquidator through email and hard copy in the format rescribed in the detailed E-auction Process Document on or before 28th June, 2024. The bid form along with detailed terms & conditions of the complete E-auction process can be downloaded fror the website https://eauctions.co.in.

4. It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and/or not to accept and/or disqualify any interested party / potential investor/bidder without assigning any reason and without any liability. 5. All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the detailed E-Auction Process Document, prior to submission of EMD and participation in the process. The Liquidator can be con tacted at liq.pandhari@gmail.com

Sd/- CA Prashant Jain, Liquidator - Pandhari Milk Private Limited IBBI Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P01368/2018-2019/12131 Email ID: ipprashantjain@gmail.com; liq.pandhari@gmail.com Correspondence Address: SSARVI Resolution Services LLP, B-610, BSEL Tech Date: 15/06/2024 Park, Sec. 30 A, Vashi, Navi Mumbai- 400 703

Place: Navi Mumbai

(IRM ENERGY LIMITED Energy

CIN- L40100GJ2015PLC085213 Registered Office: 4th Floor, Block 8, Magnet Corporate Park, Near Sola Bridge, S.G. Highway, Ahmedabad, Gujarat, India - 380054; Email: investor.relations@irmenergy.com; Website: www.irmenergy.com: Phone: 07949031500

Contact No: +91 90826 07703

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING BY REQUISITION

NOTICE is hereby given that Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the Members of IRM Energy Limited ("Company"), on the requisition made by Cadila Pharmaceuticals Limited and IRM Trust, shareholders of the Company ("Requisitionists") holding an aggregate of 50.07% of the paid up equity share capital of the Company, will be held on Monday, July 08, 2024 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) /Other Audio Visual Means (OAVM) facility in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with MCA General Circular No. 14/2020 dated 08 April, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020 and last being General Circular No. 9/2023 dated September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, and Circular No. SEBI/HO/DDHS /P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 (collectively referred to as 'SEBI Circulars') issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), without the physical presence of the members at the common venue, to transact the special businesses, as set out in the EGM Notice dated June 11, 2024.

are registered with the Company and/or Depositories in accordance with aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars. The requirement of sending physical copies have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. Notice convening the EGM is also available on the website of the Company at https://www.irmenergy.com/, on the website of Link Intime India Private Limited at https://instavote.linkintime.co.in and on the website of Stock Exchanges, viz, the National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com and the BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulrements) Regulations, 2015, the Company

is pleased to provide facility to its Members to cast their vote electronically for the Resolutions as set forth in the Notice convening EGM using electronic voting platform i.e., https://instavote.linkintime.co.in as provided by Link Intime India Private Limited ("LIIPL"), the Registrar & Share Transfer Agent ("RTA"). The voting right of the Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid equity share capital of the Company on cut-off date i.e., Monday, July 01, 2024 ("Cut-off date"). Detailed procedure for remote evoting is provided in the Notice of the EGM.

Members holding shares as on the Cut-off date, may cast their vote electronically on the business matters set out in the notice through remote e-voting. Members are informed that:

- a. All the four special business matters set out in the Notice will be transacted through voting by electronic means only.
- b. The remote e-voting shall commence on Friday, July 05, 2024 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Sunday, July 07, 2024 at 5.00 p.m.
- c. Any person who becomes a member of the Company after the date of sending the notice of this EGM and holding shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to enotices@linkintime.co.in or investor.relations@irmenergy.com. However, if the person is already registered with LIIPL for remote e-voting then the existing login id and password may be used to cast the vote.
- d. Members will not be able to cast their vote electronically beyond the date and time as mentioned above and the remote e-voting module shall be disabled for voting by LIIPL thereafter. Once the vote on a resolution is casted by the members, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

Members who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the EGM. However, they will not be eligible to vote at the

- Members, who will present at the EGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote evoting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system in the EGM. The members can join the EGM in the VC/OAVM mode at least 15 minutes before and till 15 minutes after the scheduled time of
- commencement of the EGM by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the EGM through VC/OAVM will be made available for 1,000 members on first come at serve basis. The voting results along with the Report of the Scrutinizer shall be placed on the Company's website at https://www.irmenergy.com/, LIIPL's website at https://instavote.linkintime.co.in and on the website of Stock Exchanges, viz, the National Stock Exchange of India

the meeting, after declaration of the voting results by the Chaiman or person authorized by him in writing. In case of any queries or grievances relating to electronic voting, Members may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) and InstaVote e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send an email to

Limited (NSE) at www.nseindia.com and the BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com, within two working days of the conclusion of

enotices@linkintime.co.in or contact on Tel.: 022-49186000. In case members have any queries regarding accessing and participation in the meeting through VC, they may send an email to instameet@linkintime.co.in or contact on: Tel: 022-49186175. Members may also write to the Company Secretary at investor.relations@irmenergy.com or registered office address of the Company.

> By Order of the Board For, IRM Energy Limited

Place: Ahmedabad Date: June 15, 2024

The Company has sent the Notice convening EGM on June 14, 2024 through electronic mode to the Members whose email addresses

Shikha Jain Company Secretary & Compliance Officer

New Delhi

associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot

be held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

सार्वजनिक सूचना

(दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा-102 के अंतर्गत)

मैसर्स बिमला मारू फैशन प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर

श्री योगेश माहेश्वरी के लेनदारों के ध्यानार्थ हेत्

इसके द्वारा सुचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, न्यायालय–।।।, नई

दिल्ली ने आईबीसी, 2018 की घारा 100 के अंतर्गत सीयी सं. (आईबी)-46(एनडी) / 2022 और

आईए-428/2024 में श्री योगेश माहेश्यरी, निवासी डी-5/3, चतुर्थ तल, राधाधाम सोसाइटी,

चौतन्य विहार फेज । बंदावन, उत्तर प्रदेश-281121 (समाधान पेशेवर को अंतिम ज्ञात पता) के विरुद्ध

श्री योगेश माहेश्वरी, के लेनदारों को इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर

अर्थात 06.07.2024 तक या उससे पहले अपने दावे सबत के साथ एनसीएलटी, कोर्ट- 111 नई

दिल्ली द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधान के तहत नियुक्त रिजॉल्यूशन

प्रोफेशनल श्री परमजीत सिंह भाटिया को इस पते सी-39, सूर्य नगर, गाजियाबाद, उत्तर

प्रदेश-201011, मेल आईडी- bhatiaparam.s@gmail.com . पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता

लेनदारों को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर हेत्

दिवाला समाचान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7 के अंतर्गत निर्धारित फॉर्म बी में समाधान

पेशेवर के समझ अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। लेनदारों के दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

06.07,2024 होगी। लेनदार अपने दावों को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या क्रियर, स्पीड पोस्ट

नोटः सबूत के साथ झुठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016

सार्वजनिक सूचना

(दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा–102 के अंतर्गत)

मैसर्स बिमला गारू फैशन प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर

श्री गोपाल दास माहेश्वरी के लेनदारों के ध्यानार्थ हेत्

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, न्यायालय-।।।, नई

दिल्ली ने आईबीसी, 2016 की धारा 100 के अंतर्गत सीधी सं. (आईबी)-49(एनडी) / 2022 और

आईए-330/2024 में श्री गोपाल दास माहेश्वरी, निवासी डी-5/3, वतुर्थ तल, राधावाम सोसाइटी,

चौतन्य विहार फेज ।, वृंदावन, उत्तर प्रदेश-281121 (समाधान पेशेवर को अंतिम ज्ञात पता) के विरुद्ध

श्री गोपाल दास माहेश्वरी के लेनदारों को इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 21 दिनों के शीतर

अर्थात 06.07.2024 तक या उससे पहले अपने दावे सबूत के साथ एनसीएलटी, कोर्ट- 111, नई

दिल्ली द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2018 के प्रावधान के तहत नियुक्त रिजॉल्यूशन

प्रोफेशनल श्री परमजीत सिंह भाटिया को इस पते सी-39, सूर्य नगर, गाजियाबाद, उत्तर

प्रदेश-201011, मेल आईडी- bhatiaparam.s@gmail.com , पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता

लेनदारों को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर हेत् दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7 के अंतर्गत निर्धारित फॉर्म बी में समाधान

पेशेवर के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। लेनदारों के दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

06.07.2024 होगी। लेनदार अपने दावों को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या करियर, स्पीड पोस्ट

नोटः सबूत के साथ झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन संहिता. 2016

श्री गोपाल दास माहेश्वरी की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के मामले में

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात 362266

शाखा कार्यालयः कमरा नं. 401, चौथी मंजिल, कैमक स्क्वायर, 24, कैमक स्ट्रीट, कोलकाता — 700016

शाखा कार्यालयः २मंजिल, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली 110001

"परिशिष्ट-१४-ए"

(नियम ८(६) परंतुक देखें)

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली

2002(2002 का 54) के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम

एतद्दवारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, बंधकों एवं गारंटरों को नोटिस दिया

जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई हैं,जिसका भौतिक कब्जा आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड / सिक्योर्ड क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा

लिया गया है। इसको उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं से सुरक्षित लेनदार अर्थातु मेसर्स राहल

ट्रेडिंग कंपनी, नवनीत गुप्ता, लीना गुप्ता, चंदर गुप्ता, नीलम गुप्ता और मेसर्स सी.जी. ट्रेडिंग

कंपनी से रु.६,15,62,724.82 / – (छह करोड़ पंद्रह लाख बासठ हजार सात सौ चौबीस और

बायसी पैसे मात्र) (यह राशि टीडीएस गणना और पूर्व भुगतान शुल्क, जैसा लागू हो, को

छोड़कर है) 28.04.2023 तक देय है और सुरक्षित लेनदार को वसूली की तारीख तक ब्याज

और अन्य खर्च देय की वसूली हेतु 23.07.2024 को " जैसा है जहां है", "जैसा है जो भी है

' और ''जो कुछ भी है'' पर बेचा जाएगा। उपरोक्त राशि में टीडीएस गणना और पूर्व भुगतान

आरक्षित मूल्य 3,25,36,912/- रुपये (तीन करोड़ पच्चीस लाख छत्तीस हजार नौ सौ बारह

हाउसिंग कॉम्प्लेक्स–ओरानिया, पच्चीस लाख छत्तीस तिरपन हजार छः सौ

अचल संपत्ति का विवरणः

आरक्षित मुल्य

3,25,36,912 / − | ₹.

तीन करोड़ (रुपये बत्तीस लाख

तिथि और राशि तिथि

हजार नौ सौ बारह मात्र) इक्यावन और दो पैसे)

32,53,691.2 /

2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

मैसर्स बिमला मारू फैशन प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर

आईबीबीआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00961/2017-2018/11582

पंजीकृत ईमेल आईडी: bhatiaparam.s@gmail.com, मो. 9920128849

पत्राचार पताः सी-39, सूर्ये नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

और किसी भी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार दंढ या कारावास की सजा दी जाएगी।

दावों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र निम्न लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है:

या पंजीकृत पन्न के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

तिथि 15-06-2024

अर्थात दिनांक 13.08.2024 को दिवालियापन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है।

श्री योगेश माहेश्वरी की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के मामले में

आईबीबीआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00961/2017-2018/11582

पंजीकृत ईमेल आईढी: bhatiaparam.s@gmail.com, मो. 9920128849

पत्राचार पताः सी-39, सूर्यं नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011

मैसर्स बिमला मारू फैशन प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर

और किसी भी अन्य लाग कानुनों के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावास की सजा दी जाएगी।

दावों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र निम्न लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है:

या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

विधि 15-06-2024

स्थानः गाजियाबाद

अर्थात दिनांक 13.06.2024 को दिवालियापन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है।

उत्तर रेलवे निविदा सूचना सं. 24/2024-2025 दिनांक: 14.06.2024 इलेक्ट्रॉनिक निविदा ई प्रणाली के अंतर्गत मदों की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली–110001

क्र.सं.	निविदा सं.	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	अंतिम तिथि
01	19240288	आई ओ एच किट फॉर एल्गी कंप्रेसर टाइप	133 सेट	15.07.24
02	16244508	सेरेमिक रेसिस्टर फॉर गवर्नर	31 नग	15.07.24
03	09242365	495-4 ए क्विक ड्रा फॉर बी एल सी वैगन	51 नग	22.07.24
04	09242417	पिन	49608 नग	20.08.24
05	07240089	इंजेक्शन मोल्डेड धर्मोप्लास्टिक पॉलीस्टर एलास्टोमर एक्सल बॉक्स फ्रंट कवर	8594 नग	29.08,24

निविदा शर्तेः 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट यानि www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है। 2. मैनुअल निविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी।

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

ОМКАКА ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः नं १, एम.पी. नगर, प्रथम स्ट्रीट, कोंगू नगर एक्सटेंशन, तिरुपुर 641607। कॉर्पोरेट कार्यालयः कोहिनुर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर पश्चिम, मुंबई ४०० ०२८ दूरभाषः ०२२–६९२३११११

[परिशिष्ट - IV-|] |नियम 8 (6) का प्रावधान देखें|

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)

नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित सामान्य जनता तथा विशेष रूप से उधारकर्ता मेसर्स एंडीज टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड और गारंटर श्री परेश रस्तोगी, श्री पीयूष रस्तोगी, श्री पंकज रस्तोगी और श्री दीपक रस्तोगी और बंधककर्ता श्रीमती कृष्णा देवी और श्रीमती रानी देवी को इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां सुरक्षित लेनदार (पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीसीएचएफएल)) को बंधक रखी गई हैं, जिसका प्रतीकात्मक कब्जा सुरक्षित लेनदार होने के नाते पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (अब ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है) के अधिकृत अधिकारी ने ले लिया है। इसके बाद, ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) (ओमकारा पीएस 03/2023–24 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए) ने 30 मार्च 2024 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के जरिए उपरोक्त उधारकर्ता / गारंटर के खिलाफ लंबित संपूर्ण बकाया ऋण को अंतर्निहित सुरक्षा के साथ पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीसीएचएफएल) से हासिल कर लिया है। तदनुसार, वर्णित अचल संपत्ति को 'जहां है जैसी है', 'जो है जैसी है', और 'जो कुछ भी है' और 'बिना किसी सहारे के' आधार पर 22 जुलाई, 2024 को सुबह 11 बजे बेचा जाएगा, ताकि 31.01.2024 तक रु. 2,02,22,24,046 / — (दो सौ दो करोड़ बाईस लाख चौबीस हजार छियालीस रुपये मात्र) की बकाया राशि, साथ ही 01 फरवरी, 2024 से प्रभावी ब्याज और व्यय की वसूली की जा सके, जो कि उपरोक्त उधारकर्ता / गारंटर से ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को देय है।

आरक्षित मूल्य 37,00,00,000 रुपये (केवल सेंतीस करोड़ रुपये) होगा और बयाना राशि 37,00,000 रुपये (केवल सैंतीस लाख रुपये) होगी। संपत्तियां सरफेसी अधिनियम के प्रावधाना. के तहत अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेची जाएंगी। अचल संपत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि और ज्ञात भार (यदि कोई हो) इस प्रकार हैं: भागित गर्म ईएमदी

संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	इएमडा	
लखनऊ के शेखपुर—कसैला, फैजाबाद रोड पर खसरा संख्या 131, प्रवेश 32,879 वर्ग फीट भूमि के भूखंड का हिस्सा बंधक रखी गई संपत्ति का पूरा टुकड़ा, साथ ही उस पर होने वाला पूरा वर्तमान और भविष्य का निर्माण, जिसका स्वामित्व श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री जवाहरलाल रस्तोगी और श्रीमती कृष्णा देवी के पास है।		₹. 37,00,00,000/-	₹. 37,00,000/—
ई—नीलामी की तिथि 22 जुलाई 2024, सोमवार सु		वह 11.00 बजे से दोपह	इर 12:00 बजे तक
निरीक्षण तिथि 15 जुलाई, 2024, सोमवार समर		दोपहर 12:00 बजे से श	ाम ४:०० बजे तक
न्यूनतम बोली वृद्धि राशि 25,00,000 / - (केंबल पच		गीस लाख रुपये)	-
नागीदारी के बोली पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का 20 जुलाई 2024, शनिवार अमाण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय		शाम ४:०० बजे तक	
	Programme and the second		

नीलामी ओएआरपीएल द्वारा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। बोली (ऑनलाइन और हार्ड कॉपी में) जमा करने की अंतिम तिथि ईएमडी (डीडी/पे ऑर्डर मूल रूप में या एनईएफटी/आरटीजीएस वे माध्यम से प्रेषण) के साथ 20 जुलाई 2024, शनिवार शाम 4:00 बजे तक है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://omkaraarc.com/auction.php या https://www-bankeauctions.com, पर दिए गए लिंक को देखें। इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई-नीलामी सेवा प्रदाता ष्मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड', टेलीफोन से संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइनः +91-7291981124/25/26, हेल्पलाइन ई-मेल आईडी: support@bankeauctions.com,या श्री भाविक पंड्या, मोबाइलः 8866682937 ई-मेल maharashtra@c1india.com, और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए अधिकृत अधिकारी, श्री अनिकेत जोशी, मोबाइलः +91 9869026887 ई—मेलः aniket.joshi@omkaraarc.com से संपर्क करें।

वैधानिक हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत बिक्री के लिए वैधानिक सूचना यह नोटिस सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता / गारंटर को 30 (तीस) दिनों का अनिवार्य नोटिस भी है, जिसमें उन्हें उपरोक्त दिनांक और समय पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिक्री के आयोजन के बारे में सूचित किया जाता है। यदि वे चाहें तो परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए, SARFAESI अधिनियम की धारा 13(8) के तहत निर्धारित समय के भीतर लागत और व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करके सलाह दी जाती है। भुगतान में चूक के मामले में, संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारीध्सुरक्षित ऋणदाता के विवेक पर सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से बेचा जाएगा।

दिनांकः 15-06-2024 हस्ता / - प्राधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड स्थानः मुंबई (ओमकारा पीएस 03/2023-24 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हए) श्री अनिकेत जोशी, मोबाइलः +91 9869026887

सार्वजनिक प्रकाशन के माध्यम से वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति

ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार द्वारा बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाएं की प्रधान राशि और ब्याज की पुनः अदायगी में चूक

की है तथा कथित सुविधाओं को नीचे वर्णित प्रत्येक खाते के अंतर्गत नॉन-परफॉर्मिंग असैट्स के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय संपत्तियों

के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत कर्जदार/गारंटरों को उनके अंतिम

ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए थे, तथापि नोटिस अवितरित वापिस आ गए है और प्राधिकृत अधिकारी को विश्वास का कारण है कि कर्जदार/गारंटर

(सह-उधारकर्ता/गारंटर) मकान नंबर डी- अन्य मालिक का प्लॉट, दक्षिणः अन्य मालिक का प्लॉट। **प्रीति पांडे पत्नी संतोष पांडे** से संबंधित संपत्ति अर्थात

1/49. राम विहार, बंथला, गाजियाबाद, बाप सब में सं. 2 पर है। रेहन दिनांक 29.12.2022 के सुजन के लिए शीर्षक विलेख के जमा का ज्ञापन।

उत्तर प्रदेश- 201102. यहां भीः मकान नंबर 58, मीरा बाई पॉलिटेक्निक कैंपस, महारानी बाग, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, साउथ दिल्ली, दिल्ली

प्रदेश-245201, **2. आमना उर्फ** @ **आमना** मीटर क्षेत्रफल के सभी अनिवार्य अंग। जिसकी सीमांए नीचे अनुसार है, सीमाबद्धः पूर्वः रोड, पश्चिमः प्लॉट

इलियास उर्फ @मोहम्मद इलियास उर्फ नं. 83, उत्तरः प्लॉट नं. 83, दक्षिणः रेलवे। **नूर मोहम्मद उर्फ @नूर मोहम्मद** से संबंधित संपत्ति अर्थात आप

उधारकर्ता/गारंटर) 544, नगला मसानी, खैर रोड, हबीब का मकान, उत्तरः वहाजुद्दीन का मकान, दक्षिणः नाथी चौबे का मकान। **श्री सलीम** से संबंधित संपत्ति

मस्जिद वाली गली, हरिजन चौराहा, कोइल, अर्थात आप सब में सं. 3 पर है। रेहन दिनांक 16.09.2015 के सृजन के लिए शीर्षक विलेख के जमा का ज्ञापन

अलीगढ़, उत्तर प्रदेश- 202001, अन्य स्थानः 373, नगला मसानी, खैर रोड, मस्जिद वाली गली, हरिजन चौराहा, कोइल, अलीगढ, उत्तर प्रदेश- 202001, **3. सलीम**

202001, **आवास (खाता संख्या** पश्चिमः ताजुद्दीन की संपत्ति, उत्तरः मीना की संपत्ति, दक्षिणः सड़क। **अकबरी** से संबंधित संपत्ति अर्थात आप सब

गली, लखीमपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002, उर्फ @र्फ्झा पत्नी अनवर से संबंधित संपत्ति अर्थात आप सब में सं. 4 पर है। रेहन दिनांक 29.09.2022

(सह-उधारकर्ता/गारंटर) खसरा नंबर 3063, श्याम नगर, फातमा मस्जिद के सामने वाली गली के सामने, लखीमपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002. 3.

उस्मान पुत्र अनवर (सह-उधारकर्ता/गारंटर) 217, किनानगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250004, 4. रहीसा उर्फ @रईसा पत्नी अनवर (सह-

उधारकर्ता/गारंटर) मकान नंबर 222, गांव और पोस्टः किना नगर, थाना/पीएसः भवनपुर, गढ़ रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002, 5. अफशाना पत्नी फकरुद्दीन

@ फकरुद्दीन (सह-उधारकर्ता/गारंटर) खसरा संख्या 3063, श्याम नगर, फातमा मस्जिद के सामने वाली गली, लखीमपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002,

उपरोक्त कर्जदारों/गारंटरों को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर नोटिस में वर्णित राशि अदा करने की सलाह दी जाती है

जिसमें असफल होने पर नोटिस की तिथि से 60 दिन बाद वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण व पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति ब्याज के प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा कर्जदारों/गारंटरों को किसी तरीके से, जो कुछ भी हो,

के माध्यम से बिना बैक की सहमित के बिना उपरोक्त वर्णित प्रतिभृतित परिसंपत्तियों के साथ लेन देन करने से एतदृद्वारा प्रतिबंधित किया जाता है।

स्थान: दिल्ली और उत्तर प्रदेश

यह सूचना बैंक को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना है और अधिनियम तथा/या अन्य प्रभावी कानून के अधीन है।

में सं. 1 पर है। रेहन दिनांक 29.02.2023 के सृजन के लिए शीर्षक विलेख के जमा का ज्ञापन।

मोहल्ला लखीमपुरा, मेरठ, उत्तर प्रदेश में 16.05.2024 05.05.2024

पुत्र वहाबुद्दीन (सह-उधारकर्ता∕गारंटर) 373, खैर रोड, नगला मसानी, मस्जिद वाली गली, हरिजन चौराहा, कोइल, अलीगढ, उत्तर प्रदेश - 202001

मोहल्ला जीवनगढ़, परगना और तहसील

शंकर विहार, ब्लॉक-सी, गांव चिपियाना

वर्ग गज क्षेत्रफल वाली आवासीय संपत्ति, प्लॉट संख्या 50, ब्लॉक-डी में, खसरा

संख्या 243 में से, राम एन्क्लेव के सभी अनिवार्य अंग। जिसकी सीमांए नीचे अनुसार

डिमांड नोटिस

की तिथि

10.10.2023

13.05.2024

सब में सं. 1 पर है। रेहन दिनांक 02.12.2022 के सजन के लिए शीर्षक विलेख के जमा का ज्ञापन।

14.05.2024 05.09.2018

23.04.2024 09.03.2024

की तिथि

08.09.2023

09.04.2024

नोटिस की सेवाओं से बच रहे है, इसलिए उन्हें इस नोटिस के बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है।

प्रतिभृतित परिसंपत्तियों

ग्राम बंथला, परगना लोनी, तहसील और

201102, **2. प्रीति पांडे पत्नी संतोष पांडे** है, सीमाबद्धः पूर्वः रास्ता 18 फीट चौड़ा, पश्चिमः अन्य मालिक का प्लॉट, उत्तरः

(उधारकर्ता) पुत्र मोहम्मद इलियाश उर्फ @ गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति फ्लैट संख्या ए

मोहम्मद इलियास उर्फ @इलियास, वार्ड नं. 5, 2 का ऊपरी भूतल, सामने की ओर, प्लॉट संख्या 84 पर 52 वर्ग गज (43.47

बाबू गढ़ छावनी, लालपुर, गाजियाबाद, उत्तर वर्ग मीटर) क्षेत्रफल, खसरा संख्या 167/1 में से 200 वर्ग गज यानी 167.22 वर्ग

छावनी, जिलाः हापुड, चक्रसनपुर, बाबगढ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-245201। आवास ऋण (खाता संख्या 2210210050000037)

(उधारकर्ता) 373, नगला मसानी, खैर रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित आवासीय मकान, जिसका क्षेत्रफल 70 वर्ग गज

मस्जिद वाली गली, हरिजन चौराहा, कोइल, (58.52 वर्ग मीटर) के सभी अनिवार्य अंग के साथ इमारतों, संरचनाओं और उन

अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001, 2. **मो. अकील** पर सभी सुधारों। जिसकी सीमाए नीचे अनुसार है, सीमाबद्धः पूर्वः रोड, पश्चिमः

235, गली नंबर 08, जीवनगढ़, कोइल, अलीगढ़ नगर निगम संख्या 4/665 और नई संख्या 4/665एम-3 वाली फ्री होल्ड आवासीय

उत्तर प्रदेश - 202001, **2. छोटे @ छोटे पुत्र** संपत्ति, छत के अधिकार के साथ भूतल, 91 वर्ग गज या 76.08 वर्ग मीटर के सभी

बकर अली (सह-उधारकर्ता/गारंटर) 235, ^{गली} अनिवार्य अंग। जिसकी सीमांए नीचे अनुसार है, सीमाबद्धः पूर्वः हानी की संपत्ति,

(उधारकर्ता) इसके मालिक फकरुद्दीन उर्फ 3071 से संबंधित 60 वर्ग गज यानी 50.16 वर्ग मीटर का आवासीय मकान के

@फकरुद्दीन के माध्यम से खसरा नंबर 3063, सभी अनिवार्य अंग। जिसकी सीमांए नीचे अनुसार है, सीमाबद्धः पूर्वः रोड,

श्याम नगर, फातमा मस्जिद के सामने वाली पश्चिमः छोटे खां का मकान, उत्तरः विक्रेता का प्लॉट, दक्षिणः रोड। **४. रहीसा**

मकान संख्या 5/275, नगला मसानी, खैर

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

1. संतोष पांडे पत्र बिसंभर पांडे जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित 50

1. नूर मोहम्मद उर्फ @नूर मोहम्मद बुजुर्ग, परगना और तहसील दादरी, जिला

शकोल पुत्र सलीम उर्फ @सलीम रोड, परगना और तहसील कोइल, जिला

1. अकबरी पत्नी छोटे @ छोटे (उधारकर्ता) कोइल, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित

1. मेसर्स जेनुइन ए.आर.टी. ब्रश स्थित खसरा संख्याः 3063, 3066 और

2. फकरुद्दीन उर्फ @फकरुद्दीन पुत्र अनवर के सृजन के लिए शीर्षक विलेख के जमा का ज्ञापन।

शाखा और कर्जदार

∕गारंटर के नाम

(**उधारकर्ता**) मकान नंबर डी-1/49, राम

110025 आवास ऋण (खाता संख्या 2211220240000012)

विहार, बंथला, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

@मोहम्मद इलियास, नगर पंचायत बाबगढ,

पुत्र सलीम उर्फ @सलीम (सह-

एमएसई ऋण (खाता संख्या 226980100000002)।

शाखाः अलीगढ़ (यूपी)

शाखाः मेरठ (यूपी)

एमएसई सुरक्षित ऋण (खाता संख्या 2220210090000047)

2269210170000071)

दिनांक: 14.06.2024

शाखाः शादीपुर (दिल्ली)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड पंजी: कार्यालय: 11 वॉ तल, टावर ए,पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम

TATA मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 CIN No.U067190MH2008PLC187552 कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना तिथि से उस पर ब्याज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागतों आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस के लिये लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसम्पनियों को विमोचित करने के लिये अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ऋण	देनदार सांविधिक उत्तराधिकारियों/	बकाया राशि एवं	कब्जा की
खाता सं.	सांविधिक प्रतिनिधियों का नाम	सूचना की तिथि	तिथि
10471911	श्री अमित शर्मा, पुत्र राम दास (ऋणधारक के रूप में एवं श्रीमती मुन्नी देवी, पत्नी रामदास (सह-ऋणधारक के रूप में।	रू.18,24,876 (रू.अठारह लाख चौबीस हजार आठ सौ छियत्तर मात्र)	11.6.2024

प्रतिभृत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरणः बिक्री प्रलेख में वर्णित सभी सामृहिक सुविधाओं के साथ लोहिया नगर आवास योजना, सी.बी. गंज, बरेली-243001 (उत्तर प्रदेश में स्थित आवासीय यनिट/फ्लैट नं एस-3, प्रथम तल, प्लॉट नं.114, माप 19.84 वर्ग मी, निर्मित एरिया 59.54 पर निर्मित, का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहदी: पूर्व : प्लॉट नं. 113, पश्चिम : प्लॉट नं. 115, उत्तर: प्लॉट नं. 99, दक्षिण : फ्लैट नं. एफ-2 एवं सामृहिक पैसेज।

तिथि: 15-6-2024 हस्ता./- प्राधिकत अधिकारी टाट कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के लिये स्थानः बरेली (उत्तर प्रदेश)

प्रपत्र सं. आईएनसी—26

(कंपनी (निगमीकरण) नियमावली 2014 के नियम 30 के अनुपालन में) एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन हेत् समाचारपत्र में प्रकाशित किया जानेवाला विज्ञापन

केंद्रीय शासन (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी

क्षेत्र, के समक्ष) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) तथा कंपनी (निगमीकरण) नियमावली 2014

के नियम 30(6)(ए) के प्रकरण में

मैसर्स एस एंड एम हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में, जिसका पंजीकृत कार्यालय : "ब्लॉक—01, IX—3974—ए, प्रथम तल, गली नं.—14, शांति मोहल्ला, गांधी नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110031, भारत में स्थित है।"

......आवेदक कंपनी / एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्रीय शासन, शक्तियाँ क्षेत्रीय निदेशक को सौंपी गयीं हैं, के पास एक आवेदन करने का प्रस्ताव रखती है, जिसमें शुक्रवार 14 जून 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के निबंधनों के अनुसार कंपनी के संस्था के ज्ञापन के परिवर्तन के पृष्टिकरण की इच्छा प्रकट की गई है, ताकि कंपनी, अपने पंजीकृत कार्यालय को ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (राराक्षे) दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश के राज्य'' में परिवर्तित करने में

कोई भी व्यक्ति, जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा संभवतः प्रभावित हो सकता है, वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिवसों की समयावधि के अंदर, अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधारों का उल्लेखन करनेवाले एक शपथपत्र द्वारा अनुसमर्थित अपनी आपत्ति / यों को सौंप दे अथवा मूल प्रति को ''क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को इसके पते बी–2 स्कंध, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003'' को प्रेषित कर दे अथवा स्वयं जाकर दे आये अथवा इस पते पर पंजीकत डाक द्वारा प्रेषित कर दे। साथ ही इस सचना की एक प्रति, आवेदक कंपनी को निम्न वर्णित पते पर स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय को भी प्रेषित कर दे :

'ब्लॉक–01, IX–3974–ए, प्रथम तल, गली नं.–14, शांति मोहल्ला, गांधी नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली — 110031. भारत'

एस एंड एम हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड हेतु तथा उसकी ओर से दिनांक : 14-06-2024 स्थान : नई दिल्ली

दूसरा तल, जीएमटीटी भवन डी-7

सैक्टर 3 नोएडा उ.प्र. 201301

अनुसार बकाया

09.10.2023 को देय है

जमा 10.10.2023 से

अनुबंधीय दर पर ब्याज व

29.04.2024 को देय है

जमा 30.04.2024 से

अनुबंधीय दर पर ब्याज व

जमा 11.05.2024 से

10,58,880/- रु. जो

07.04.2024 को देय है

जमा 08.04.2024 से

अनुबंधीय दर पर ब्याज व

अन्य प्रभार।

16,62,767/- रु. जो

13.05.2024 को देय है

जमा 14.05.2024 से

अनुबंधीय दर पर ब्याज व

प्राधिकृत अधिकारी

11,20,985/- रु. जो

पूनीत अग्रवाल (निदेशक) डीआईएन : 01629563

रेलटेल (सीआईएन सं: U64202DL2000G0l107905) निविदा संख्या : रेलटेल/टेंडर/ओटी/ईआर/एवक्य् / 2024-25/1534-1535, fig-rinn: 14.06.2024 रेलटेल / पूर्वी क्षेत्र "असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यो

में गेल (इंडिया) लिमिटेड के विभिन्न कार्यालयों की लास्ट

माइल कनेक्टिविटी के लिए डार्क फाइबर लिंक को किराए

पर लेगा" के कार्य हेतु पात्र बोलीदाताओं से ई-बोलिया आमंत्रित करता है। विस्तृत निविदा सूचना / निविदा दस्तावेज https:/ www.railtel.in. https://eprocure.gov.in afta https://railtel.enivida.com पर उपलब्ध है। भविष्य के सभी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र आदि को रेसटेल वेबसाइट शीपीपी पोर्टन और ई-लिविदा पोर्टन पर अपनोड किया

जाएमा। बोलीदाताओं को केवल ई-मिविदा पोर्टल पर

CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA MAHENDERGARH - 123031 (HARYANA)

ADVERTISEMENT FOR CONTRACTUAL POSITIONS

candidates for the positions of Contractual Positions under UGC -MMTTC, CUH on purely contractual basis for a period of 06 months & will be extended after every 06 months till March, 2026 or completion of the project. The detailed advertisement is available on the website www.cuh.ac.in. The last date will be 21 days from the date of publishing of advertisement.

Sd/-Director, MMTTC

कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम

तन्ज कुमार (कर्जदार)

श्रीमती हेमलता एच (सह–कर्जदार)

स्थान : दिल्ली, एनसीआर, तिथि : 15-06-2024

Applications are invited from eligible

गांव वजीराबाद,सेक्टर–53, तहसील और जिला गुरुग्राम (हरियाणा) की राजस्व संपदा में स्थित ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बहमंजिला टॉवर कोरल में 8वीं मंजिल पर स्थित है, जिसे 'ओरानिया' के नाम से जाना जाता है, में आवासीय अपार्टमेंट क्रमांक कोरल-802, जिसका अनुमानित सुपर एरिया 192 8 वर्ग मीटर (यानी लगभग 2074 वर्ग फीट) है, जिसमें एक कार पार्किंग स्थान क्रमांक-ए-7 है, साथ ही उक्त भवन के नीचे की भूमि में अविभाजित आनुपातिक हित है, जिसमें उक्त अपार्टमेंट स्थित है जिसकी गणना उक्त अपार्टमेंट के सुपर एरिया के अनुपात में सभी अपार्टमेंट के कुल सुपर एरिया से की जाती है। उक्त भवन में अपार्टमेंट / यूनिटें श्रीमती लीना गुप्ता के स्वामित्व में हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए,कृपया सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट

https://mortgagefinance.adityabirlacapital.com/Pages/ Individual/Properties-for-Auction-under-SARFAESI-Act.aspx https://sarfaesi.auctiontiger.net में दिए गए लिंक को देखें।

दिनांकः 15.06.2024 (प्राधिकृत अधिकारी) स्थानः गुरूग्राम, हरियाणा कृते आदित्य बिड्ला फाइनेंस लिमिटेड

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइबैंस लिमिटेड

शुल्क शामिल नहीं है।

रुपये मात्र) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगाः

संपत्ति का संक्षिप्त विवरण

अपार्टमेंट नं. कोरल—802, 8वीं

सेक्टर-53, गुरुग्राम, हरियाणा

मंजिल, कोरल टॉवर, ग्रुप (रुपये

APRIGLOBAL पाप्रा पाप्रा पाप्रा है। अप्रा है। अप्रा है। अप्र प्रा पार्थ है। अप्र प्रा है। अप्र प्र है। अप्र है। अ HOUSING FINANCE LIMITED **सर्किल कार्यालय :-** 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

परिशिष्ट IV कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतू)

जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ के अधीन और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) को नीचे दिए विवरण के अनुसार मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदृद्वारा कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पिटत उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभृत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर सीजीएचएफएल की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

_				
1.	संख्या LNHLNO1000090475)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : मकान नंबर बी–41–सी, क्षेत्रफल परिमाप 200 वर्ग गज यानी 167.22 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1611 मिन, स्थित आवासीय कालोनी राम विहार,		12—06—2024 (सांकेतिक)
	बालक राम बी (कर्जदार) श्रीमती सीमा देवी, अजीत (सह–कर्जदार)	ग्राम लोनी (चकबंदी क्षेत्र), परगना एवं तहसील लोनी, जिल	· · ·	। तर प्रदेश—201102.
	Mill the tall order (the avoidity)	चौहद्दी निम्नानुसार : पूरब : राजू का प्लॉट, पश्चिम : इं	दरपाल का मकान,	उत्तर : 40 फीट
		चौड़ा रास्ता, दक्षिण : 10 फीट चौड़ा रास्ता		
2.	(हमारी गाजियाबाद शाखा की ऋण खाता	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति क्षेत्रफल परिमाप		12-06-2024
	संख्या LNCGCGZBTL0000007680)	345 वर्ग गज यानी 288.45 वर्ग मीटर, खसरा नंबर	'ক.	(सांकेतिक)
	रणजीत सिंह यादव (कर्जदार)	325/1, ग्राम हरसाऊ, परगना डासना, तहसील एवं जिला		
	सुंदर सिंह यादव, श्रीमती रामवती देवी	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001. चौहद्दी निम्नानुसार :	पूरब : भवर सैन क	ग मकान, पश्चिम
	(TIE 3. (EU)	: बदन सिंह की किष भिम. उत्तर : विक्रेता द्वारा छोडी ग	ई रोड़ 55 फीट	दक्षिण : श्री काल

प्रत्याभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का वर्णन

(सह–कर्जदार) की सम्पत्ति (हमारी गाजियाबाद शाखा की ऋण खाता सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय फ्रीहोल्ड फ्लैट 05-04-2024 नंबर एफएफ-2, क्षेत्रफल परिमाप 477 वर्ग फीट यानी 44. (सांकेतिक) संख्या LNHLGHB000084252)

31 वर्ग मीटर, प्रथम तल, फ्रंट आरएचएस, छत के बगैर, 17,59,187/— एमआईजी, प्लॉट नंबर ए-2, खसरा नंबर 211 का भाग, रेल विहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड, ग्राम सादल्लाबाद, परगना एवं तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश. चौहददी निम्नानुसार : पुरब : फ्लैट नंबर एफएफ-1/फ्लैट नंबर ए-3, पश्चिम : खुला प्लॉट नंबर ए—1, उत्तर : 40 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण : प्रवेश / जीना / फ्लैट नंबर एफएफ—3 / अन्य का फ्लैट

हस्ता./-, (प्राधिकृत अधिकारी) वास्ते कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल

एस्कोर्ट्स लिमिटेड एम्पलॉयीज प्रोविडेन्ट

फंड ट्रस्ट के सदस्यों के लिये सुचना एतद्वारा एस्कोर्ट्स लिमिटेड एम्पलॉयीज प्रोविडेन्ट फंड ट्रस्ट (ट्रस्ट) अर्थात कोड नं. डीएल/776 के अंतर्गत एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड (पूर्व में एस्कोर्ट्स लिमिटेड) द्वारा स्थापित ट्रस्ट के सदस्यों (पूर्व-सदस्यों सहित) को सुचित किया जाता है कि, उसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली सेन्ट्रल, भविष्य निधि भवन, 28 कम्युनिटी सेन्टर, वजीरपुर इंड. एरिया, नई दिल्ली-110052 के पास 1.4.2023 से समर्पित कर दिया गया था।

हम पुनः सूचित करना चाहते हैं कि यदि किसी सदस्य/पूर्व-सदस्य की अंशदान राशि ट्रस्ट के पास दावा-रहित पड़ी थी तो उसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त 1 दिल्ली सेन्ट्रल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भविष्य निधि भवन, वजीरपुर इंड. एरिया, नई दिल्ली-110052 के पास जमा कर दिया गया है। उक्त राशि का दावा करने के लिये संबंधित सदस्य/पूर्व सदस्य को अपना यूएएन जनरेट/अपडेट करना होगा। पूछताछ के लिये आप trust@escortskubota.com पर ईमेल भेजकर श्री पी.सी. जोशी से अथवा निम्नलिखित किसी भी पते पर सम्पर्क कर सकते हैं: i. 403, 4था तल, डीएलएफ टावर-बी, जसोला, नई दिल्ली-110025

ii. 15/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 कृते, एस्कोर्ट्स लिमिटेड एम्पलॉयीज प्रोविडेन्ट फंड ट्रस्ट हस्ता./-



ट्रस्टी

हस्ता /-

परमजीत भाटिया

समाधान पेशेवर

परमजीत भाटिया

समाधान पेशेवर-

एएफए वैद्यता 21.12.2024 तक

आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड

एएफए वैधता 21.12.2024 तक

उम्मीद हाउसिंग फाइनांस प्रा. लि. नीआईएन: U65922HR2016PTC057984 पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 809-815, 8वीं मंजिल, टॉवर-ए, एमार डिजिटल ग्रीन्स, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर-61, गुरुग्राम-122002 (हरियाणा)

मांग सूचना [सर्गाती अधिनवम वटे धारा 1)(१) के अंतर्गत] वृष्कि, ऋग खाल एनमीए वन नुकी है, अतः विशीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निमीण तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 की थारा 13 (2) के अंतर्गत प्राधिकत अधिकारी में तालिका में नीचे दिये गये ऋणचारक/आयेदक, गारंटर/मार्टगैतर की 60 दिनों की मांग सूचना जागे की बी। सूचना के अनुसार बंदि ऋषधारक 60 दिनों के चीतर सम्पूर्ण गणि का भूगतान नहीं करते हैं तो उस राशि को बसली गिरची सम्पन्तिनीचे वर्षित प्रतिभूत परिसम्पन्ति की नीलायी से की जानी थी। अनः क्ष्मचारकों को सुचित किया बाता है कि बांग सुचना की तिथि से 60 दिनों के चीतर आगे के ब्यान तथा खार्चे के साथ सम्पूर्ण ऋग हाँग का भुगतन करें अन्यया उका अधिनियम की भार 13 (4) तथा 14 के अंतर्गत प्रधिकृत अधिकारी तीचे वर्णित रूप में गिरयी

सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति को विक्री के लिये उसका करना करेंगे। बराधारक ध्वान रखें कि अधिनियम, 2002 को धारा 13 (13) के अनुसार इस स्वना की प्रति के बाद आप प्रतिभूत क्रेडीटर की पूर्व मतनति के जिन जिक्की, पट्टा वा अन्य रूप से प्रतिभूत परिसम्पत्ति का अंतरण करने से निषद्ध किये गये हैं।

ब्रुमधारक का ध्यान प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) निवम, 2002 की धारा 13 (8) के साथ पंदित निवम 3 (5) के प्रति जाकृष्ट की नाती है कि ऋगभारक नीलामी सुचना के प्रकाशन से पूर्व नीचे वर्णित सम्पूर्ण बकाया देवता कर भूगतान कर अपनी प्रतिभूत परिसम्पत्तियाँ

ऋणधारकः/आवेदकः/गरेटरः/	धार (३(३) के अंतर्गत मांग	निरयी सम्पन्ति का
मार्टनेजरः का जम	युवास की तिथि एवं चांत	विवयगा
सूर्वीय सिंह, पूत्र रामधन (ऋगधारक), 2. पणी देवी, पानी सूर्वीय सिंह (सह-ऋगधारक) दोनी नियासी: केसर नगाता धोण्डली, गुरुग्राम, हरियामा 122102, साथ ही: चीराहा के पाप, गनन्ती कसा, तहसील-गंगपुन सिंही, अहमस्पून, सर्व्य माधीपुर, राजस्थान-322201 ऋग सं.: LXJNP03620-210009361 एवं LXJNP04622-230017402, ऋग अनुवंध तिथि: 26 नय. 2020 एवं 15 जून, 2022 ऋग राजि: ह 500000/- एवं ह.	तथा र. 65038/-, कुल संशि र. 3,63,531/- (र. तीन शास तिहेसर शामर पांच सी इक्सीस मात्र) 5 जून, 2024 की + 6 जून, 2024 से आगे	हरियाणा में रिथन सम्पन्ति एरिया मात्र 120 वर्ग बाईश, खेबन-खात नं, 546/903 कर भाग, खतीनी नं, 1113, मुस्तित नं, 205, किल्ल नं, 6(8-0), मुस्तित नं, 206, किल्ला नं

स्थान : गुरुवाश सिवि : १६ जून, 2024 प्राधिकृत अधिकारी, भी गीरम विद्यादी, भीका, sessessio

सार्वजनिक सूचना

(दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 की घारा-102 के अंतर्गत) मैसर्स बिमला मारू फैशन प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर सुश्री बिमला माहेश्वरी के लेनदारों के ध्यानार्थ हेत्

इसके द्वारा सचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, न्यायालय–।।। नई दिल्ली ने आईबीसी, 2016 की घारा 100 के अंतर्गत सीपी सं. (आईबी)-45(एनडी) / 2022 और आईए-258/2024 में सुश्री बिमला माहेश्वरी, निवासी डी-5/3, चतुर्थ तल, राधाधाम सोसाइटी चौतन्य विहार फेज ।, बृंदावन, उत्तर प्रदेश-281121 (समाधान पेशेवर को अंतिम प्रात पता) के विरुद्ध अर्थात दिनांक 13.06.2024 को दिवालियापन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है ।

सुश्री बिमला माहेश्वरी के लेनदारों को इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर अर्थात 06.07.2024 तक या उससे पहले अपने दावे सबूत के साथ एनसीएलटी, कोर्ट— 111, नई दिल्ली द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता. 2018 के प्रावधान के तहत नियक्त रिजॉल्यशन प्रोफेशनल श्री परमजीत सिंह माटिया को इस पते सी-39, सूर्य नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011, मेल आईडी- bhatiaparam.s@gmail.com पर प्रस्तुत करने के लिए कहा

लेनदारों को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर हेत् दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7 के अंतर्गत निर्धारित फॉर्म बी में समाधान पेशेवर के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। लेनदारों के दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 06.07.2024 होगी। लेनदार अपने दावों को इलेक्ट्रॉनिक संघार के मध्यम से या क्रियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रस्तृत कर सकते हैं।

दावों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपन्न निम्न लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है:

https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

नोट: सबूत के साथ झुठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और किसी भी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावारा की सजा दी जाएगी। तिथि 15-06-2024

स्थानः गाजियाबाद

परमजीत भाटिया समाधान पेशेवर-

सुत्री ब्रिमला माहेश्वरी की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के मामले में मैसर्स बिगला मारू फैशन प्राइवेट लिगिटेड की व्यक्तिगत गारंटर आईबीबीआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00961/2017-2018/11582 पंजीकृत ईमेल आईडी: bhatiaparam.s@gmail.com, मो. 9920128849 पत्राबार पताः सी-39, सूर्य नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011 एएफए वैधता 21.12.2024 तक

SINGER

सिंगर इंडिया लिमिटेड (CIN: L52109DL1977PLC025405)

पंजी. कार्यालय और मुख्य कार्यालय: ए-26/4, द्वितीय तल, मोहन कोऑपरेटिव इंडरिट्रयल एस्टेट, नई दिल्ली -110044

टेली: +91-11-40617777, टोल फ्री मंघ. 1800-103-3474

ई-मेलः secretarial@singerindia.com mail@singerindia.com, वेबसाहटः www.singerindia.com

48वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के संबंध में जानकारी

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के सभी लागू प्रावधानं उसके अधीन बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभृति और विनिभय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एर प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीयन विनियम') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य

मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 2/2022, 10/2022 एवं 09/2023 और सभी संगत परिपत्रों (संयुक्त रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप : संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिभय बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. सेबी / एवओ / सीएफडी / सीएमढी१/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 नई, 2020, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफढी, सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसम्बर, 2020, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी, सीएमढी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, परिपत्र सं. सेबी/एवओ/सीएफढी, सीएमढी२/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई. 2022, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफढी/ पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 एवं अन्य संगत परिपत्रों (संयुक्त क्तम से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित), जिसमें आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति व बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति दी गई है, के अनुपालन में एजीएम की सबना में निर्धारित सभी व्यवसायों के निष्पादन के लिए सिगर इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 46वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 17 जुलाई, 2024 को दोप. 01.30 बजे (आईएसटी) विक्रियों कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑक्रियों विक्रियों माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी। बीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं।

अधिनियम, सेबी सचीयन विनियम, एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्रों के प्रावधानों के अनपालन में 48वीं एजीएम की सूचना और वितीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 21 जून, 2024 को मेज दी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डसके रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या ठिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डिपॉजिटरी") के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त कथित 46वीं एजीएम की सुथना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.singerindia.com, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वैबसाइट www.evoing.nsdl.com पर भी उपलब्ध है और डाउनलोड की जा सकती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 व नियम 20, यथासंशोधित और सेबी सूचीयन दिनियम के दिनियम 44 के अनुसरण में कंपनी अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग सिस्टम (संयुक्त रूप से "इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग" के रूप में संदर्भित) का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए एजीएम से पूर्व रिमोट ई-बोटिंग सुविधा और एजीएम के दौरान ई-बोटिंग सिस्टम की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में नेशनल सक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाए ली हैं।

कंपनी ने निदेशक मंठल ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया या अन्यथा रिमोट ई-बोटिंग एवं एजीएम में ई-बोटिंग की जांच के लिए गैसर्स वरूणा मित्तल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का परिमाण लागू नियमों के अधीन निर्धारित समय-सीमा के भीतर घोषित किया जाएगा। परिणाम और संवीक्षक की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.singerindia.com, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी प्रदर्शित किया जाएगा।

अधिनियम एवं नियम के अनुसरण में विवरण निम्नानुसार है: रिमोट ई—मोटिंग रविवार, 14 जुलाई, 2024 को प्रातः 9:00 बजे (मा.मा.स) प्रारंभ होगी और मंगलवार, 16 जुलाई, 2024 को सायं 5:00 बजे (भा.मा.स) समापा होगी। कथित तिथि एवं समय के बाद रिगोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात 10 जुलाई, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर/लागार्थी स्वामियों की सूची में शामिल होगा, केवल वही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा का लाम उठाने का पात्र होगा। सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 10 जुलाई, 2024 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयर के अनुपातिक होगा। ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिग्रहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर घारण करता है, वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे सकता है। लॉगइन विवरणों के लिए पूरी प्रक्रिया बैठक की सूचना में दी गई जो कि कंपनी

ऐसे सदस्य जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के मान्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम में ई-वोटिंग के दौरान बोट देने के लिए योग्य होंगें। सदस्यगण जिन्होंने बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना बोट दिया है, वे भी बीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित होने वाली एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन चन्हें एजीएम में दोबारा अपना वोट देने की अनुगति नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वह इसे केवल सूचना का प्रयोजन मात्र समझे।

की वेबसाइट www.singerindia.com पर उपलब्ध है।

सदस्यगण जिन्होंने अपना ई--मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराया है, वे एजीएम से पूर्व या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए, कंपनी/आरटीए या ढिपॉजिटरी के पास अपना ई-मेल पंजीकृत/अपडेट करा सकते हैं। ऐसे सदस्यगण जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए ई-मेल पता पंजीकरण की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है जो कि कंपनी की वेबसाइट www.singaringia.com पर

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए www.evoting.nsdi.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें या 022 – 4886 7000 पर कॉल करें या सुश्री पल्लवी महान्ने की ई–मेल evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मेज सकते हैं।

> बोर्ड के ओदश से कृते सिंगर इंडिया लिमिटेड हस्ता/-स्त्रपंदर कीर

> > कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 14 जून 2024

www.readwhere.com